



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 2—दिसम्बर 8, 2006 (अग्रहायण 11, 1928)

No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 2—DECEMBER 8, 2006 (AGRAHAYANA 11, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

विषय-सूची	पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	945	भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1235	भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	9	भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, निर्यत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	3591
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1767	भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	813
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	11307
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	743
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*		

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	945	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) *
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1235	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence *
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	9	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 3591
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1767	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs 813
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners *
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 11307
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 743
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi *
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
 (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवंबर 2006

सं. 5(18)/2002-चमड़ा--औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की दिनांक 3 नवम्बर, 2005 की अधिसूचना सं. 5(18)/2002, चमड़ा के साथ जारी दिशा-निर्देशों के पैरा 5.1.3. द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुवीक्षण समिति इस बात से संतुष्ट होने के उपरान्त कि "चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास" (आईडीएलएस) योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की दिनांक 3 नवम्बर, 2005 की अधिसूचना सं. 5(18)/2002-चमड़ा में निम्नलिखित संशोधन करती है:--

उक्त अधिसूचना में,

(I) दिशा-निर्देशों में,-

(i) पैरा 3.10 को निम्न प्रकार संशोधित कर दिया गया है:--

"योजना के तहत परियोजना कार्यान्वयन इकाइयां, नामतः टैनरियों के लिए 'केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई)', फुटवेयर, फुटवेयर घटकों, चमड़े की वस्तुओं और परिधानों व जीनसाजी के लिए 'फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान (एफडीडीआई)' द्वारा योजना में शामिल करने के लिए किसी भी अन्य कार्यकलाप पर जो ऊपर नहीं बताया गया हो और वर्तमान दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट न की गई मशीनों पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते उनके फलस्वरूप दिखाई देने वाले और व्यवहार्य सुधार हों जिनसे प्रौद्योगिकी उन्नयन हो सके। इसी प्रकार, सीएलआरआई और एफडीडीआई किसी कार्यकलाप/मशीनरी की सूची को हट्य सकते हैं। तथापि, विविधीकरण को नया उद्यम माना जाएगा और उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों द्वारा किसी कार्यकलाप/मशीनरी सूची को जोड़ने या हटाने का काम विषय-निर्वाचन समिति तथा 'सिडबी' को पूर्व-सूचना देकर ही किया जाएगा।

गौरी सिंह
 निदेशक

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर 2006

संकल्प

संख्या 11013/8/2004-हिन्दी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिनांक 8.9.2005 के संकल्प संख्या 11013/(1)/2000-हिन्दी में आंशिक संशोधन करते हुए उसमें उल्लिखित हिन्दी सलाहकार समिति के गठन में निम्नलिखित प्रतिस्थापन/प्रविष्टि एतद्वारा की जाती है :-

- (1) क्रम संख्या 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाती है :-
"4. श्री जी संजीवा रेड्डी, संसद सदस्य (राज्य सभा)"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, सामान्य राजस्व, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों और राज्य सरकारों एवं संघ राज्य प्रशासनों, को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

प्रभ दास
संयुक्त सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 नवम्बर 2006

संकल्प

सं. ई.-11011/6/2003-हिन्दी-II । इस मंत्रालय के दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 के समसंख्यक संकल्प के अनुक्रम में उपर्युक्त संकल्प में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है - 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास द्वारा नामित शीर्षक के अंतर्गत क्रम सं. 11 में 'श्री जे.एस. रामदास' के स्थान पर 'डॉ. एस.पार्थसारथी' पढ़ा जाए।'

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों तथा सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, ग्रामीण विकास मंत्रालय के वेतन तथा लेखा कार्यालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों आदि को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

नीलम साहनी
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 नवम्बर 2006

श्री श्री मन्त्र, नई दिल्ली
13 नवम्बर, 2006

सं0एफ0 9-38/2004-यू.3 (ए)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर, नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा (बिहार) को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम विश्वविद्यालय घोषित करती है। यह उस तिथि से लागू होगा जिस तिथि से महाविहार स्वयं को मगध विश्वविद्यालय, बोध गया तथा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा से असम्बद्ध कर लेगा।

- (2) यह घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठंकन की क.सं. 6 में उल्लिखित शर्तों के अधीन है।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 16th November 2006

No. 5(18)/2002-Leather – In exercise of the powers conferred by para 5.1.3 of the guidelines issued along-with Department of Industrial Policy and Promotion's Notification No. 5 (18) 2002-Leather dated November 3, 2005, the Screening Committee being satisfied that it is necessary in public interest to do so in order to ensure effective implementation of the Scheme, "Integrated Development of Leather Sector" (IDLS), hereby makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) No. 5 (18) 2002- Leather dated November 3, 2005, namely: -

In the said Notification, -

(I) in the guidelines, -

(i) Para 3.10 stands modified as under. -

"The Project Implementation Units under the Scheme, viz., Central Leather Research Institute (CLRI) for tanneries and Footwear Design and Development Institute (FDDI) footwear, footwear components, leather goods & garments, and saddlery may consider any other activity not listed above and machines not specified in the current guidelines for inclusion under the Scheme provided that they lead to visible and viable improvements leading to technology up gradation. Similarly, the CLRI and FDDI may delete an activity/list of machineries. However, diversification will be treated as new venture and not allowed. Any addition or deletion of an activity/list of machineries by the PIUs would be done with prior intimation to the Steering Committee and the SIDBI".

GAURI SINGH
Director

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 14th November 2006

RESOLUTION

No. 11013/8//2004-Hindi In partial modification of the Ministry of Petroleum & Natural Gas. Resolution No. 11013/(i)/2005- Hindi, dated 08.09.2005, the following substitution/entry is hereby made in the constitution of Hindi Salahkar Samiti :-

- (1) The following entry is substituted at Sl. No.4 :-
“ 4. Shri G. Sanjiva Reddi, MP (Rajya Sabha)”

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all Members of the Committee, President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Prime Minister's office, Cabinet Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Ministry of Parliamentary Affairs, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues, all Ministries and Departments of the Government of India. and all State Governments and Union Territory Administrations.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information,

PRABH DAS
Joint Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 15th November 2006

Resolution

No. E-11011/6/2003-Hindi-II. In continuation of the Ministry's Resolution of even number dated 20 Oct. 2005, the following amendments is made in the above resolution of 20 Oct. 2005.

Under the title Nominated by the "Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha, Thyagarayanagar, Chennai" at Sl. No. 11 "Shri S. Parthasarathy, member" may be read in place of "Shri J.S. Ramdass, member".

ORDER.

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the Members of the Samiti, all State Govts. and Union Territory Administrations, President's Secretariat, Vice President's Secretariat, all Ministries and Departments of the Govt. of India, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Committee of Parliament on Official Language, Comptroller and Auditor General of India, Pay & Accounts Office of the Ministry of Rural Development and Attached and Subordinate offices under the control of the Ministry of Rural Development.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

NILAM SAWHNEY
Joint Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 13th November 2006

No. F. 9-38/2004-U.3(A)

In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), hereby declare the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda (Bihar) as Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act from the date the Mahavihara disaffiliates itself from Magadh University, Bodh Gaya and Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University, Darbhanga.

2. This declaration is subject to conditions mentioned at S. No. 6 of the endorsement of this notification.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.